



राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान  
**National Institute of Fashion Technology**  
निफ्ट कैंपस, हाज़ खास, निकट गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-110016  
NIFT Campus, Hauz Khas, Near Gulmohar Park, New Delhi-110016

**Advt. No. 05 /Rectt. Group-A&B Posts /Deputation /2019**

National Institute of Fashion Technology (NIFT), a Statutory body under the Ministry of Textiles, Government of India and a premier Institute of Fashion Business Education with 16 Campuses located across the country invites applications on deputation basis from the persons working on regular basis in the Central Govt./State Govt./UT/Autonomous Organizations/ PSUs etc. in the prescribed proforma for the following posts at NIFT Head Office/Campuses as per details given below:

S.No.	Post Name	Pay Level	Nos. of vacancies	Vacancies Location
1.	Executive Engineer	Level-11	09	Bengaluru, New Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Rae Bareli, Gandhinagar. Bhubaneswar & Hyderabad
2.	Assistant Director	Level-7	09	Head Office, Bhopal, Bhubaneswar, Jodhpur, Kangra, New Delhi, Rae Bareli, Shillong & Srinagar(J&K)
3.	Computer Engineer	Level-7	13	Head Office, Mumbai, Bhubaneswar, Shillong, Jodhpur, Bengaluru, Bhopal, Kangra, Kannur, New Delhi, Chennai, Patna & Gandhinagar
4.	Junior Engineer (Civil)	Level-6	06	New Delhi*, Mumbai*, Bengaluru, Chennai, Hyderabad & Kolkata
5.	Junior Engineer (Electrical)	Level-6	10	Head Office*, Bengaluru*, Gandhinagar*, Kolkata*, Hyderabad*, Mumbai, Chennai, Bhubaneswar, Kannur & Patna

Note: The vacancies shown under \*(astrik) are anticipated vacancies. Vacancies may vary.

**A. Eligibility Condition for Recruitment on Deputation Basis:**

S.No.	Post Name	Eligibility Criteria for Recruitment on Deputation Basis
1.	Executive Engineer Pay Level-11/ PB-3, Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.6600/-	Must have atleast 3 years experience as Assistant Executive Engineer (Civil) in CPWD / PWD or related Government organizations/ autonomous bodies/ PSUs holding analogous post on regular basis in their service / department.
2.	Assistant Director Pay Level-7/ PB-2, Rs.9300-34800+GP Rs.4600/-	At least 5 years experience in public relations work in Govt. / autonomous bodies/ PSUs holding analogous post on regular basis in their service / department <b>Essential:</b> Knowledge of Govt. Purchase Procedures

*[Handwritten Signature]* 1 *[Handwritten Mark]*

		<b>Desirable:</b> 5 years experience in admissions related work in educational institutions
3.	Computer Engineer – Level-7/PB-2, Rs.9300-34800 + Grade Pay Rs.4600/-	Minimum 3 years experience in Govt. / Semi-Govt./ PSU/ Autonomous institute holding analogous post on regular basis in the department.
4.	Junior Engineer (Civil) Level-6/ PB-2, Rs.9300- 34800+GP Rs.4200/-:	Candidates working on regular basis in their service / department in analogous grades or lower grade with 5-8 years of relevant experience from CPWD/PWD/DDA/PSUs etc.
5.	Junior Engineer (Electrical) Level-6/ PB-2, Rs.9300- 34800+GP Rs.4200/-:	Candidates working on regular basis in their service / department in analogous grades or lower grade with 5-8 years of relevant experience from CPWD/PWD/DDA/PSUs etc.

**B. Age Limit (as on closing date): 56 years.**

**C. Process of Selection:** The selection process comprises, where applicable, test/skill test/interview of candidates shortlisted by the Screening Committee.

**D. GENERAL INSTRUCTIONS:**

1. All applicants must fulfill the essential requirements of the post and other conditions stipulated in the advertisement as on the last date of receipt of the applications. They are advised to satisfy themselves before applying that they possess at least the essential qualifications and/or experience laid down for the post as on the last date of receipt of the applications. No enquiries with reference to eligibility will be entertained.
2. The date for determining the upper age limit, qualifications and /or experience shall be the closing date prescribed for receipt of applications.
3. The period of deputation shall be 03 years initially. The terms and conditions of deputation will be governed as per Govt. of India Orders/ Instructions on the subject.
4. Applications shall be forwarded through proper channel along with attested copies of APARs of last 05 years and Vigilance / Cadre Clearance/NOC failing which the application will not be considered.
5. The Concerned department while forwarding application shall certify that the applicant, if selected, will be relieved within one month of the receipt of the Offer of Appointment.
6. Incomplete applications not accompanied with the required certificates / documents/ unsigned are liable to be rejected.

*[Handwritten signature]* 2

7. The decision of the NIFT in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of applications, mode of selection, conducting examination/interview will be final and binding on the candidates.
8. Application once made will not be allowed to be withdrawn on any count nor can it be held in reserve for any other recruitment or selection process.
9. All correspondence from the Institute including interview letter, if any, shall be sent only to the e-mail address provided by the applicant in the application form, or uploaded on NIFT website [www.nift.ac.in](http://www.nift.ac.in).
10. In case of any inadvertent mistake in the process of selection, which may be detected at any stage even after issuing an appointment letter, the Institute reserves the right to modify/withdraw/cancel any communication made to the applicant.
11. Interested applicants are requested to forward their applications through proper channel in the prescribed format downloaded from Institute's website ([www.nift.ac.in](http://www.nift.ac.in)) to the Registrar, NIFT Head Office, 2<sup>nd</sup> Floor, Hauz Khas, Near Gulmohar Park, New Delhi-110016 so as to reach on or before 31.07.2019 by 5:00 p.m.

\*\*\*\*\*

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is simpler and more legible.



राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार)

निफ्ट कैम्पस, हाजि खास, नई दिल्ली-110016

NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY

(Ministry of Textiles, Government of India)

NIFT CAMPUS, HAUZ KHAS, NEW DELHI-110016

हाल में बनवाया गया  
पासपोर्ट आकार का  
फोटो यहाँ चिपकाएं/  
Please affix a  
recent passport  
size photograph

विज्ञापन सं./Advertisement No. :

05 /Rectt. Group-A&B Posts /Deputation /2019

आवेदित पद/ Post Applied for :

--

1. पूरा नाम/Full Name:

लिंग /Gender:

पू/ M

महिला /F

वैवाहिक स्थिति/Marital status:

विवाहित/Married

अविवाहित/Single

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. पिता का नाम/Father's name

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. माता का नाम/Mother's Name

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. संपर्क का पता/Contact Address:


5. स्थायी पता/Permanent Address:


6. संपर्क विवरण: (कृपया संपर्क का तरीका माध्यम बताएं)/Contact details:(please indicate preferred mode of communication)

ई-मेल/E-Mail:			
दूरभाष/Telephone:	कार्यालय/Office:	आवास/Res.:	मोबाइल/Mobile:

7. जन्म तिथि/Date of Birth

(अंकों में/in figures)

--	--	--

दिन/Day

--	--	--

माह/Month

--	--	--	--	--

वर्ष/Year

8. क्या सरकारी/स्वायत्त निकाय/पी एस यू कर्मचारी हैं? / Whether Government/Autonomous Bodies/PSU Employee?

हाँ/Yes

नहीं/No



9. शैक्षिक रिकॉर्ड की उच्चतम डिग्री से 10वीं पास तक/Academic Record starting with highest degree upto 10<sup>th</sup> standard:

कोर्स/Course	कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम/ Name of College / University / Institute	ब्रांच/विशिष्ट डिग्री/डिप्लोमा/ Branch/ Specialization Degree/Diploma	कोर्स की अवधि/ Course Duration		अंक/ग्रेड का प्रतिशत/ % age of marks/Grade
			से/From	तक/To	

(यदि जगह अपर्याप्त है, एक पृथक शीट संलग्न करें, अपने हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणीकृत करें/ Enclose a separate sheet, duly authenticated by your signature, if the space is insufficient.)

10. रोजगार का विवरण, कालानुक्रम में (सरकारी सेवा में आने से लेकर अब तक/ Details of employment, chronological order (Starting from entry in Government Service):

कार्यालय/संगठन Office/ Organization	पदनाम सहित वेतनमान / Post held with scale of pay	सेवावधि/ Period of Service		नियुक्ति की प्रकृति (नियमित /तदर्थ/प्रतिनियुक्ति)/ Nature of appointment (Regular / ad-hoc/deputation)	मूल वेतन /Basic Pay			नियुक्ति के दौरान किए गए कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरे सहित कार्य की प्रकृति/ Nature of duties with Brief Details of works performed during the appointment
		से/Form	तक/To		पे बैंड में वेतन/ Pay in PB	ग्रेड पे/ GP	मूल वेतन/ Basic Pay	

(यदि जगह अपर्याप्त है, एक पृथक शीट संलग्न करें, अपने हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणीकृत करें/ Enclose a separate sheet, duly authenticated by your signature, if the space is insufficient)



11. संगत अनुभव के कुल वर्ष/ Total years of relevant experience

12. प्राप्त विशेष पुरस्कार/सम्मान, यदि कोई/ Special Awards/Honours received, if any

वर्ष/ Year	पुरस्कार का नाम/सम्मान/ Name of award/ honour	संगठन का नाम/ Name of organization

13. क्या आप आवेदित पद के लिए पात्रता मापदंड पूरा करते हैं/ Do you fulfill the eligibility criteria for the post applied for:

(i) कार्यकारी अभियंता / Executive Engineer

हाँ/Yes

नहीं/No

अपनी सेवा विभाग में नियमित आधार पर /सदृश पद धारक CPWD/PWD या संबंधित सरकारी संगठनों / स्वायत्त निकायों /PSU में सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव /

Must have atleast 3 years experience as Assistant Executive Engineer (Civil) in CPWD / PWD or related Government organizations/ autonomous bodies/ PSUs holding analogous post on regular basis in their service / department./

(ii) सहायक निदेशक / Assistant Director

हाँ/Yes

नहीं/No

अपने सेवा / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारक सरकारी / स्वायत्त निकाय / सार्वजनिक उपक्रम में जनसम्पर्क में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव /

At least 5 years experience in public relations work in Govt. / autonomous bodies/ PSUs holding analogous post on regular basis in their service / department

अनिवार्य / Essential / सरकारी खरीद प्रक्रिया का ज्ञान : Knowledge of Govt. Purchase Procedures

वांछनीय / Desirable / शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश संबंधित कार्य में 5 वर्ष का अनुभव :5 years experience in admissions related work in educational institutions

(iii) कम्प्यूटर इंजीनियर / Computer Engineer

हाँ/Yes

नहीं/No

विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारक सरकारी/ अर्ध सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रम/ स्वायत्त संस्थान में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव /

Minimum 3 years experience in Govt. / Semi-Govt./ PSU/ Autonomous Institutes holding analogous post on regular basis in the department

(iv) जूनियर इंजीनियर (सिविल) / Junior Engineer (Civil)

सीपीडब्ल्यूडी / पीडब्ल्यूडी / डीडीए / पीएसयू आदि /में अपनी सेवा

विभाग में नियमित आधार पर /

कार्यरत सदृश ग्रेड धारक या निचले ग्रेड धारक में 5 - 8 वर्ष साल के प्रासंगिक अनुभव के साथ अभ्यर्थी /

हाँ/Yes

नहीं/No

Candidates working on regular basis in their service / department in analogous grades or lower grade with 5-8 years of relevant experience from CPWD/PWD/DDA/PSUs etc.



(v) जूनियर इंजीनियर (इलैक्ट्रिकल) / Junior Engineer (Electrical)

सीपीडब्ल्यूडी / पीडब्ल्यूडी / डीडीए / पीएसयू आदि में अपनी सेवा

विभाग में नियमित आधार पर /

हाँ/Yes

नहीं/No

कार्यरत सदस्य ग्रेड धारक या निचले ग्रेड धारक में 5 - 8 वर्ष साल के प्रासंगिक अनुभव के साथ अभ्यर्थी

Candidates working on regular basis in their service / department in analogous grades or lower grade with 5-8 years of relevant experience from CPWD/PWD/DDA/PSUs etc.

14. अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई, जिसे आप पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहेंगे/Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post:

---

---

---

---

---

---

---

---

(यदि जगह अपर्याप्त है, एक पृथक शीट संलग्न करें, अपने हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणीकृत करें/ Enclose a separate sheet, duly authenticated by your signature, if the space is insufficient.

15. टिप्पणी/Remarks

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस प्रपत्र में सभी प्रविष्टि के साथ-साथ संलग्न शीट मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है/ I hereby, declare that all entries in this form as well as attached sheets are true to the best of my knowledge and belief.

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
कार्यालय का पूरा पता/  
Signature of the candidate  
Full Office Address:

दूरभाष/मोबाइल नं./Tel/Mobile No.:  
ईमेल आईडी/Email Id:

स्थान/ Place:

तारीख/Date:

संलग्नक/ Enclosures:



**नियोक्ता द्वारा प्रष्ठांकन / Endorsement by Employer**

(भारत सरकार के उप सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित /  
To be signed by an officer of the level of Dy. Secretary to the Govt. of India or above)

अभ्यर्थी द्वारा दिये गए विवरणों को सत्यापित किया गया तथा सही पाया गया। यह प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक सतर्कता का मामला लंबित / अपेक्षित नहीं है तथा पिछले 10 वर्षों में उन पर कोई छोटी / बड़ी शास्ति नहीं लगाई गई है। इनकी अद्यतन सी आर डोज़िय (2013-14 से 2017-18 तक ए सी आर सहित) संलग्न है। अधिकारी की सत्यनिष्ठा भी प्रमाणित की जाती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इनर्ब चयन की स्थिति में, नियुक्ति का प्रस्ताव प्राप्त होने के एक महीने के भीतर इन्हें कार्यभार से मुक्त कर दिया जाएगा।

The particulars mentioned by the applicant have been verified and found to be correct. It is certified that no disciplinary / vigilance case is pending / contemplated against him / her and no major / minor penalty has been awarded to him/her during the last 10 years. His/her up-to-date CR Dossiers (including ACRs/APARs from 2013-14 to 2017-18) is enclosed. Integrity of the officer is also certified. It is further certified that in the event of selection, he/she will be relieved within one month of receipt of offer of appointment.

हस्ताक्षर/Signature \_\_\_\_\_

नाम व पदनाम /Name & Designation \_\_\_\_\_

पूरा पता और टेलीफोन नं०/Complete address & Tele No. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_